

खण्ड-1. प्रस्तावना (Introduction)

- इकाई-1. मुद्रा की रूपरेखा, परिभाषा एवं कार्य (Outline, Definition and Functions of Money)
इकाई-2. मुद्रा का वर्गीकरण (Classification of Money)
इकाई-3. मौद्रिकमान, स्वर्णमान एवं पत्र मुद्रामान (Monetary Standard, Gold Standard and Paper Standard)

खण्ड-2. मुद्रा का मूल्य सिद्धान्त और स्फीति (Theory for Value of Money and Inflation)

- इकाई-4. मुद्रा के मूल्य निर्धारण के परम्परागत सिद्धान्त (फिशर व क्रेम्ब्रिज आदि) (Traditional Theory to Determine the Value of Money (Fisher and Cambridge))
इकाई-5. मुद्रा के मूल्य निर्धारण के आधुनिक सिद्धान्त (फ्रीडमैन) (Modern Theory to Determine the Value of Money (Friedman))
इकाई-6. मुद्रा स्फीति, अवस्फीति, विस्फीति, एवं संस्फीति व स्फीतिबद्ध गतिरोध (Inflation, Deflation, Disinflation and Inflation and Stagflation)

खण्ड-3. वाणिज्यिक बैंकिंग (Commercial Banking)

- इकाई-7. वाणिज्यिक बैंकिंग:- अर्थ, कार्य एवं विकास (Commercial Banking :- Meaning, Function and Development)
इकाई-8. वाणिज्यिक बैंकों की साख-सृजन की प्रक्रिया (Process of Credit Creation of Commercial Banks)
इकाई-9. बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं पश्चात् प्रगति का मूल्यांकन (Nationalization of Banks and Post-Progress Evaluation)
इकाई-10. आर्थिक सुधार काल में वाणिज्यिक बैंकों में हुए सुधार एवं नवीन नीतियाँ (Reforms and New Policies in the Commercial Banks During the Economic Reform Period)

खण्ड-4. केन्द्रीय बैंकिंग (Central Banking)

- इकाई-11. केन्द्रीय बैंक:- कार्य एवं सिद्धान्त (रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया) (Central Bank:- Function and Theory (Reserve Bank of India))
इकाई-12. साख-नियन्त्रण:- परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधियाँ (Credit Control:- Quantitative and Qualitative Methods)
इकाई-13. मुद्रा-पूर्ति:- अवधारणा, अवयव एवं निर्धारक तत्व (Money Supply:- Concept, Components and Determinant Factors)

खण्ड-5. राजस्व की प्रकृति, क्षेत्र एवं सिद्धान्त (Nature, Scope and Theory of Public Finance)

- इकाई-14. राजस्व का आशय, विषय-वस्तु एवं निजी वस्तुएँ और सार्वजनिक वस्तुएँ (Meaning, Subject-Matter of Public Finance and Private Goods and Public Goods)
इकाई-15. अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त (Theory of Maximum Social Advantage)
इकाई-16. सार्वजनिक आय-व्यय (Public Income-Expenditure)
इकाई-17. बजट एवं निर्माण प्रक्रिया (Budget and its Process of Preparation)

खण्ड-6. अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र (International Trade)

- इकाई-18. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं क्लासिकल सिद्धान्त (International Trade and Classical Theory)
इकाई-19. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धान्त (Modern Theory of International Trade)

- इकाई-20. व्यापार की शर्तें और मुक्त व्यापार, संरक्षण एवं भुगतान संतुलन (Terms of Trade and Free Trade, Protection and Balance of Payment)
- इकाई-21. विदेशी विनिमय एवं नियन्त्रण (Foreign Exchange and Control)

Suggested Readings:

1. Mithani, D.M. (2008) *International Economics*, Himalaya Publishing House.
2. Mithani, D.M. (1998) *Modern Public Finance*, Himalaya Publishing House, Mumbai
3. Musgrave, R.A. and P.B. Musgrave (1976), *Public Finance in Theory and Practice*, McGraw Hill, Kogakusha, Tokyo.
4. Agrawal, Deepak (2009), *Money Banking, Public Finance & International Economics*, Himalaya Publishing House, New Delhi.

